

भारत का राजपत्र
The Gazette of India


असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० १९] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर ५, १९७७/कार्तिक १४, १९७७

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 5, 1977/KARTIKA 14, 1977

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, ५ नवम्बर, १९७७

का० नि० घा० २४-ई.—छावनी अधिनियम, १९२४ (१९२४ का २) की धारा १६ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार १२ दिसम्बर, १९७७ को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को वाराणसी छावनी में साधारण निर्वाचन किए जाएंगे।

[सं० फा० २९ ३१/सी एल एण्ड सी/७७ ३४०३ सी डी (क्यू एण्ड सी)]

वि०य० व्या०, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th November 1977

S.R.O. 24-E—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 12th December, 1977 as the date on which elections in Varanasi Cantonment shall be held.

[No. F. 29/31/C/L&C/77/3403-C/D (Q&C)]

VINAYA VYAS, Jt. Secy

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1977

का० नि० आ० 25-ई.—सशस्त्र सेना (आपात द्यूटियों) अधिनियम, 1947 (1947 का 15वा) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में बिजली के उत्पादन, वितरण, प्रचालन और रख-रखाव और जेनरेशन स्टेशनों तथा उप-स्टेशनो को चलाते से सम्बन्धित सेवा के प्रत्येक भाग को अथवा इससे सम्बद्ध सभी सेवाओं को समाज के लिए अत्यधिक महत्व की सेवा घोषित करती हैं।

[सं० फा० 2 (109)/77/डी (जीएस)-1]

हर मन्दर सिंह, मयुक्त सचिव (जी)।

New Delhi, the 5th November 1977

S.R.O. 25-E—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), the Central Government hereby declares every service forming part of, or connected with, the generation, supply, operation, and maintenance of electricity and running of generation stations and sub-stations in the State of Uttar Pradesh to be a service of vital importance to the community.

[No. F 2(109)/77/D (GS)-I]

HAR MANDER SINGH, Jt. Secy (G)

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977